



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

(१८८३)

सं. 1863]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2009/कार्तिक 26, 1931

No. 1883]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2009/KARTIKA 26, 1931

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2009

का.आ. 2904(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अवधारित करती है कि :—

(क) “राष्ट्रमंडल के 60 वर्ष” के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एकसाल में निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का निर्माण भी किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) एक सौ रुपये;

(ii) पांच रुपये;

(ख) उपरोक्त अंकित मूल्य के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं, डिजाइन और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

सिक्के का अंकित मूल्य	आकार और बाह्य व्यास	सिरेशनों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	गोलाकार 44 मिलिमीटर	200	चतुर्थक मिश्रालु चांदी - 50 प्रतिशत तांबा - 40 प्रतिशत निकल - 5 प्रतिशत जस्ता - 5 प्रतिशत
पांच रुपये	गोलाकार 23 मिलिमीटर	100	निकल पीतल तांबा - 75 प्रतिशत जस्ता - 20 प्रतिशत निकल - 5 प्रतिशत

डिजाइन :—

1. एक सौ रुपये

मुख भाग

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” इबारत अंतर्लिखित होगी, उसकी ऊपरी बाईं परिधि पर हिन्दी में “भारत” शब्द और ऊपरी दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह शीर्ष के नीचे इस पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “100” भी होगा और निचली बाईं परिधि पर हिन्दी में “रुपये” शब्द और निचली दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “RUPEES” शब्द होगा।

4169 GI/2009

(1)

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग पर “संसद भवन” की आकृति होगी जिसके साथ बाईं परिधि पर हिन्दी में “राष्ट्रमंडल के 60 वर्ष” तथा दाहिनी परिधि में अंग्रेजी में “60 YEARS OF THE COMMON WEALTH” होगा और संसद भवन की आकृति के नीचे वर्ष “2009” अंकित होगा।

2. पांच रुपये**मुख भाग**

सिक्के के मुख भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” इबारत अंतर्लिखित होगी, उसकी ऊपरी बाईं परिधि पर हिन्दी में “भारत” शब्द और ऊपरी दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। इस पर सिंह शीर्ष के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “5” भी होगा और निचली बाईं परिधि पर हिन्दी में “रुपये” शब्द और निचली दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “RUPEES” लिखा होगा।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग पर बाईं परिधि पर हिन्दी में “राष्ट्रमंडल के 60 वर्ष” के साथ “संसद भवन” की आकृति होगी और दाहिनी परिधि में अंग्रेजी में “60 YEARS OF THE COMMON WEALTH” और संसद भवन की आकृति के नीचे “2009” वर्ष अंकित होगा।

[फा. सं. 2/2/2009/सिक्का (भाग)]

ए. के. अजमानी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2009

S.O. 2904(E).—In exercise of the power conferred by Section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that :—

(a) the coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of “60 YEARS OF THE COMMON WEALTH”, namely :—

(1) One Hundred Rupees;

(2) Five Rupees;

(b) the coins of the above denomination shall conform to the following dimensions, designs and composition, namely :—

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of Serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	Circular 44 millimeters	200	Quaternary Alloy Silver - 50% Copper - 40% Nickel - 5% Zinc - 5%
Five Rupees	Circular 23 millimeters	100	Nickel Brass Copper - 75% Zinc - 20% Nickel - 5%

DESIGNS :—**1. ONE HUNDRED RUPEES****OBVERSE**

The face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word “भारत” in Hindi and on the right upper periphery flanked with the word “INDIA” in English. It shall also bear the denominational value “100” in International Numerals below the Lion Capital, flanked on the left lower periphery with the word “रुपये” in Hindi and on the right lower periphery with the word “RUPEES” in English.

REVERSE

The face of the coin shall bear the image of “**PARLIAMENT OF INDIA**” with inscription “**राष्ट्रमंडल के 60 वर्ष**” in Hindi, on the left periphery and in English “**60 YEARS OF THE COMMON WEALTH**” on the right periphery and Year “**2009**” below the image of Parliament of India.

2. FIVE RUPEES**OBVERSE**

The face of the coin shall bear the lion capital of Ashoka Pillar with the legend “**सत्यमेव जयते**” inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word “**भारत**” in Hindi and on the right upper periphery flanked with the word “**INDIA**” in English. It shall also bear the denominational value “**5**” in International Numerals below the lion capital flanked on the left lower periphery with the word “**रुपये**” in Hindi and on the right lower periphery with the word “**RUPEES**” in English.

REVERSE

The face of the coin shall bear the image of “**PARLIAMENT OF INDIA**” with inscription “**राष्ट्रमंडल के 60 वर्ष**” in Hindi, on the left periphery and in English “**60 YEARS OF THE COMMON WEALTH**” on the right periphery and Year “**2009**” below the image of Parliament of India.

[F. No. 2/2/2009-Coin (Pt.)]

A. K. AJMANI, Under Secy.